

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 फ़रवरी 2023

### प्रश्न -1

बोइंग ने \_\_\_\_\_ में भारत का अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर (GSC) लॉन्च किया है।

- A) गुरुग्राम
- B) जयपुर
- C) कानपुर
- D) मुंबई

**सही उत्तर: A**

अमेरिकी एयरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने गुरुग्राम में भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर (GSC) लॉन्च करने की घोषणा की है और अपने क्षेत्रीय ग्राहकों का समर्थन करने के लिए एक नए रसद केंद्र में निवेश करने की भी योजना बनाई है।

### प्रश्न-2

भारत का पहला ठोस अपशिष्ट-से-हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए \_\_\_\_\_, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने द ग्रीनबिलियंस लिमिटेड (TGBL) के साथ साझेदारी की है?

- A) विजयवाड़ा नगर निगम
- B) ठाणे नगर निगम
- C) पुणे नगर निगम
- D) नेल्लोर नगर निगम

**सही उत्तर: C**

देश का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्लांट पुणे में 430 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्लांट पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदाता द ग्रीनबिलियंस लिमिटेड (TGBL) द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसने पुणे नगर निगम (PMC) के साथ 30 साल का लंबा समझौता किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-3

अपने प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए , रेनॉल्ट-निसान ने हाल ही में किस निम्नलिखित राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) तेलंगाना
- B) तमिलनाडु
- C) गुजरात
- D) अरुणाचल प्रदेश

**सही उत्तर: B**

2,000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने के साथ रेनॉल्ट-निसान गठबंधन चेन्नई के पास अपने प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु में 5,300 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम .के. स्टालिन की उपस्थिति में तमिलनाडु सरकार और रेनॉल्ट-निसान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

### प्रश्न-4

एक टीवी स्टिंग के बाद , निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है?

- A) चेतन शर्मा
- B) मदन लाल
- C) रोजर बिन्नी
- D) सुब्रतो बनर्जी

**सही उत्तर: A**

राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा का दूसरा कार्यकाल लगभग 40 दिनों में समाप्त हो गया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी को पहले एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों और चयन मुद्दों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसे यूट्यूब के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है?

- A) जॉर्ज कुरियन
- B) नील मोहन
- C) राज सुब्रमण्यम
- D) शांतनु नारायण

**सही उत्तर: B**

भारतीय-अमेरिकी नील मोहन नए यूट्यूब CEO होंगे, क्योंकि वर्तमान प्रमुख सुसान वोजिकीने गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी में 25 साल बाद पद छोड़ने की घोषणा की है। मोहन और वोजिकी ने लगभग 15 वर्षों तक एक साथ काम किया है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी हैं?

- A) चेतेश्वर पुजारा
- B) जसप्रीत बुमराह
- C) के.एल राहुल
- D) रोहित शर्मा

**सही उत्तर: A**

अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता
- B) लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू
- C) लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिन्द्र कुमार
- D) लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस.आर. सुब्रमणि

**सही उत्तर: C**

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिन्द्र कुमार को नया उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है जबकि मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू दक्षिण पश्चिमी सेना के कमांडर का पदभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली को लेह स्थित 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है।

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से कौन सा UIDAI द्वारा पेश किया गया नया AI चैटबॉट है?

- A) आधार साथी
- B) आधार सहयोगी
- C) आधार मित्र
- D) आधार मदद

**सही उत्तर: C**

UIDAI ने AI आधारित चैटबॉट आधार मित्रलॉन्च किया है। AI-बॉट भारतीय निवासियों को आधार और संबंधित सेवाओं से संबंधित उनके प्रश्नों के साथ मदद कर सकता है। आधार मित्र UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ?

- A) बिहार
- B) ओडिशा
- C) तमिलनाडु
- D) उत्तराखंड

**सही उत्तर: D**

उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। इस नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया को आजीवन कारावास या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

### प्रश्न-10

अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?

- A) खानन प्रहरी
- B) खानन साथी
- C) खानन दोस्त
- D) खानन मित्र

**सही उत्तर: A**

सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए 'खानन प्रहरी' नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया है। इस साल जनवरी तक ऐप्स पर 462 मामले दर्ज किए गए हैं।